



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 श्रावण, 1941 (श०)

संख्या- 604 राँची, बुधवार,

31 जुलाई, 2019 (ई०)

उद्योग विभाग

अधिसूचना

1 मार्च, 2019

विषय: झारखण्ड औद्योगिक नीति-2012 में GST के अनुरूप संशोधन के संबंध में।

संख्या-478-09/उ०नि०(विविधि) औ०नि०-23/2007-- झारखण्ड औद्योगिक नीति-2012 विभागीय पत्रांक 1958, दिनांक 16.06.2012 के द्वारा अधिसूचित किया गया है, झारखण्ड औद्योगिक नीति-2012 के कंडिका-32.5 में NET-VAT Incentive दिए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में झारखण्ड औद्योगिक नीति-2012 के तहत समेकित परियोजना निवेश अनुदान एवं नेट-वैट अनुदान के दावे आवेदित हैं, जिन्हें भुगतान किया जाना है तथा भविष्य में नेट-वैट से संबंधित आवेदन प्राप्त होने की सम्भावना है।

वर्तमान में NET-VAT के स्थान पर Goods and Services Tax Act (GST) लागू हो गया है एवं Goods and Services Tax (GST) Act के लागू होने के उपरान्त झारखण्ड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति-2016 में GST के अनुरूप संशोधन करते हुए ज्ञापांक 1335 दिनांक 16.05.2018 के द्वारा अधिसूचित किया गया है।

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, भारत सरकार के पत्रांक D.O.F. No. 34012/5/2018-ST-II DOR दिनांक 19.02.2018 के द्वारा भी राज्य में प्रवृत्त नीतियों में GST के अनुरूप संशोधन हेतु भी निदेशित किया गया है।

अतएव दिनांक 01.03.2019 को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-19 के रूप में स्वीकृति दिए जाने के उपरांत झारखण्ड औद्योगिक नीति-2012 के कंडिका 32.5 में निम्नवत संशोधन किया जाता है:-

1. कंडिका-32.5 के उपकंडिका a, b, c, d, e, i, j, k, l, m को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है।

(a) MSME shall be eligible for reimbursement of 60% of NET VAT paid per annum, up to a maximum of 100% of total fixed capital investment made, for different duration depending on the location of the units as mentioned below के स्थान पर MSME will be given incentive of 60% reimbursement of State GST paid on intra-state supply subject to the tax actual realization in the state government treasury with a ceiling of 100% of total fixed capital investment made for different duration depending on location of the unit as mentioned below प्रतिस्थापित किया जाता है।

(b) Large and Mega Industries shall be eligible for reimbursement of 50% of the NET VAT paid per annum up to a maximum of 75% of total fixed capital investment for different duration depending on the location of the unit as shown in the above table के स्थान पर Large and Mega industries will be given incentive of 50% reimbursement of State GST paid on intra-state supply subject to the tax actual realization in the state government treasury with a ceiling of 75% of total fixed capital investment made for different duration depending on location of the unit as shown in the above table प्रतिस्थापित किया जाता है।

(c) Handloom, Sericulture, Handicraft, Khadi and Village Industry products shall be eligible for reimbursement of 75% of the NET VAT paid per annum up to a maximum of 100% of the total fixed capital investment for different duration depending on the location of the unit as shown in the above table के स्थान पर Handloom, Sericulture, Handicraft, Khadi and Village industry product will be given incentive of 75% reimbursement of State GST paid on intra-state supply subject to the tax actual realization in the state government treasury with a ceiling of 100% of total fixed capital investment made for different duration depending on location of the unit shown in the above table प्रतिस्थापित किया जाता है।

(d)(i) Apparel, Textile, Food Processing Automobiles, IT/ITES and Bio-Tech units shall be eligible for reimbursement of 75% of NET VAT paid per annum up to a maximum of 75% of the total fixed capital investment for different duration depending on the location of the unit as shown in the above table के स्थान पर Apparel, Textile, Food Processing, Automobile, IT/ITes and Bio-Tech units will be given incentive of 75% reimbursement of State GST paid on intra-state supply subject to the tax actual realization in the state government treasury with a ceiling of 75% of total fixed capital investment made for different duration depending on location of the unit as shown in the above table प्रतिस्थापित किया जाता है।

- (ii) उपकंडिका-d(ii) में अंकित VAT के स्थान पर SGST प्रतिस्थापित किया जाता है।
- (e) उपकंडिका -e में अंकित VAT के स्थान पर SGST प्रतिस्थापित किया जाता है।
- (i) उपकंडिका -i में अंकित VAT के स्थान पर SGST प्रतिस्थापित किया जाता है।
- (j) उपकंडिका -j में अंकित VAT के स्थान पर SGST प्रतिस्थापित किया जाता है।
- (k) उपकंडिका -k में अंकित VAT के स्थान पर SGST प्रतिस्थापित किया जाता है।
- (l) उपकंडिका -l में अंकित VAT के स्थान पर SGST प्रतिस्थापित किया जाता है।
- (m) उपकंडिका -m में अंकित VAT के स्थान पर SGST प्रतिस्थापित किया जाता है। एवं including CST को विलोपित किया जाता है।
2. उपकंडिका -(n) के रूप में Explanation:-Actual realization in the state treasury means the goods supplied by the industrial unit and finally consumed within the state and SGST paid there of realized state treasury. If any ITC claimed on the goods supplied by the unit or by any subsequent taxable person in any manner whatsoever, e.g. ITC on inter-state supply then SGST paid on such goods shall not be eligible for reimbursement सम्मिलित किया जाता है।
3. झारखण्ड औद्योगिक नीति-2012 के प्रभावी रहने की तिथि (01.04.2011 से 31.03.2016) के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन करने वाली इकाइयों पर उक्त संशोधन लागू होंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० रवि कुमार,
सरकार के सचिव
